

स्विच करने की परेशानी क्यों उठायें?

आपकी बिजली का बिल आपके घरेलू खर्च का प्रमुख भाग है। ऑफ़र की ऑनलाइन तुलना करने और स्विच करने के लिए कुछ समय लेकर, आप घर से बाहर निकले बिना भी पैसे बचा सकते हैं।

विक्टोरियन एनर्जी के आधे से अधिक विज़िटर्स ने तुलना करके यह पाया है कि वे बेहतर ऑफ़र पर स्विच करके अपने वार्षिक बिजली के बिल पर 330 डॉलर बचा सकते हैं।

मेरे पास ऊर्जा संबंधी कितने विकल्प हैं?

विक्टोरिया का ऊर्जा बाजार प्रतिस्पर्धी है - 20 से अधिक ऊर्जा रिटेलर हैं और कई रिटेलर गैस, बिजली और सोलर के लिए एक से अधिक योजनाएं प्रदान करते हैं। आपको रिटेलर बदलने की भी ज़रूरत नहीं है; आप बस अपने मौजूदा रिटेलर से बेहतर डील के लिए पूछ सकते हैं!

मैं किसी और डील के लिए परेशानी मोल क्यों लूँ?

नई योजना से सहमत होने के बाद, आप अपना मन बदल सकते हैं

मोबाइल डील की ही तरह, रिटेलर के प्लान में बहुत सारी विविधताएं हैं। बिजली के लिए, फ्लैट दर योजनाएं और लचीली मूल्य निर्धारण योजनाएं हैं। कुछ ऊर्जा रिटेलर ड्यूल फ्यूल डील (एक ही सप्लायर से सस्ती बिजली और गैस) और ऑफ़र व इंसेंटिव का भी ऑफ़र देते हैं।

इसका मतलब यह है कि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं – अपनी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार सही ऑफ़र का पता लगाना उचित है।

मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी डील मेरे लिए अच्छी है?

[Victorian Energy Compare](#) पर जाएं, जहां आप अपने क्षेत्र में उपलब्ध बिजली, गैस और सोलर ऑफ़र की जल्दी से तुलना कर सकते हैं।

नई योजना से सहमत होने के बाद, क्या मैं अपना मन बदल सकता/सकती हूँ?

हां, लेकिन एक निश्चित अवधि में। अगर आपने रिटेलर से संपर्क किया है, तो आपके पास योजना को रद्द करने के लिए कम से कम 5 व्यावसायिक दिन होंगे। अगर रिटेलर ने पहले आपसे संपर्क किया है, तो आपके पास हस्ताक्षरित किए गए अनुबंध को प्राप्त करने के बाद 10 व्यावसायिक दिन होंगे। अधिक जानकारी के लिए [YourChoice](#) देखें।



अगर आपको सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अनुवाद और व्याख्या में मदद के लिए Translating and Interpreting Service (TIS) से संपर्क करें। TIS National से 131 450 (ऑस्ट्रेलिया में) पर संपर्क करें या www.tisnational.gov.au पर जाएं।



Environment,
Land, Water
and Planning